

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2930]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 2013/पौष 9, 1935

No. 2930]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 2013/PAUSHA 9, 1935

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2013

का.आ. 3909(अ).—केन्द्रीय सरकार, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33घ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3 के उप-खंड (ii) में भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी विभाग की संख्यांक का.आ. 1406(अ) तारीख 23 सितम्बर, 2005 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के प्रतिनिधियों और स्तंभ (3) में यथाविनिर्दिष्ट सदस्यों को शामिल करते हुए, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श समिति का गठन करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्र.सं.	प्रतिनिधि	सदस्य
(1)	(2)	(3)
1.	केन्द्रीय सरकार	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग, जो आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि से व्यवहार करता हो।
2.	केन्द्रीय सरकार	सलाहकार (आयुर्वेद) या संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद) भारत सरकार, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी विभाग, जो औषधि से व्यवहार करता है।
3.	आंध्र प्रदेश	आयुक्त, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, आंध्र प्रदेश।
4.	अरुणाचल प्रदेश	डॉ. इनया लिंगु, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (ए.एस. यू.) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, अरुणाचल प्रदेश।
5.	असम	डॉ. मुनीन चंद्रा, अपर औषधि नियंत्रक, निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, आसाम सरकार।
6.	बिहार	सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार।
7.	छत्तीसगढ़	डॉ. जी. एस. बदेशा, निदेशक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी।
8.	दिल्ली	डॉ. निलेश अहूजा, उप निदेशक, (भारतीय चिकित्सा पद्धति) भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी महानिदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
9.	गोवा	निदेशक, (खाद्य और औषधि) खाद्य एवं औषधि नियंत्रण प्रशासन, लोक स्वास्थ्य विभाग, गोवा सरकार।
10.	गुजरात	संयुक्त आयुक्त (आयुर्वेद चिकित्सा) खाद्य एवं औषधि प्रशासन, गुजरात सरकार।
11.	हरियाणा	डॉ. संगीता नेहरा, निदेशक (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) स्वास्थ्य और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, हरियाणा सरकार।
12.	हिमाचल प्रदेश	निदेशक (आयुर्वेद) आयुर्वेद विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार।
13.	जम्मू-कश्मीर	श्री मनोज कुमार द्विवेदी, सचिव, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार।

14.	झारखंड	डॉ. शक्ति नाथ झा, निदेशक (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) स्वास्थ्य और आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, झारखंड सरकार।
15.	कर्नाटक	औषधि नियंत्रण निदेशक, (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी कर्नाटक सरकार।
16.	केरल	डॉ. एन. विमला, उप औषधि नियंत्रक (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (एफ) विभाग, केरल सरकार।
17.	मध्य प्रदेश	श्री प्रवीर कृष्णा, प्रमुख सचिव, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, मध्य प्रदेश सरकार।
18.	महाराष्ट्र	संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) तथा नियंत्रण प्राधिकरण, खाद्य और औषधि प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार।
19.	मणिपुर	डॉ. ए. गुणेश्वर शर्मा, राज्य आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग, मणिपुर सरकार।
20.	मेघालय	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, मेघालय सरकार।
21.	मिजोरम	डॉ. सी. लालुंगनेमा, उप निदेशक (आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी विभाग), मिजोरम सरकार।
22.	नागालैंड	डॉ. खोनु मैरी, चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा (आयुर्वेद) निदेशक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय, नागालैंड सरकार।
23.	ओडिशा	संयुक्त सचिव, राज्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, जो आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी से व्यवहार करता हो, ओडिशा सरकार।
24.	पंजाब	श्री राज कमल चौधरी, सचिव स्वास्थ्य-सह-आयुर्वेद आयुक्त, योग और प्राकृतिक, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी, पंजाब सरकार।
25.	राजस्थान	निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार।
26.	सिक्किम	डॉ. आई. एल. शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (औषधि और प्रसाधन सेल का भारसाधक) स्वास्थ्य देखभाल और मानव सेवाएं तथा परिवार कल्याण विभाग, सिक्किम सरकार।
27.	तमिलनाडु	डॉ. ए. एम. अब्दुल खादर, भारसाधक संयुक्त निदेशक, भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी विभाग, तमिलनाडु सरकार।
28.	त्रिपुरा	डॉ. नारायण गोस्वामी, निरीक्षण अधिकारी (औषधि) उप औषधि नियंत्रक

		का कार्यालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, त्रिपुरा सरकार।
29.	उत्तर प्रदेश	प्रो. आर.आर.चौधरी, अनुज्ञापन प्राधिकारी और निदेशक आयुर्वेद सेवाएं, उत्तर प्रदेश सरकार।
30.	उत्तराखंड	डॉ. येतेन्द्र सिंह रावत, सहायक औषधि नियंत्रण, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी निदेशालय, उत्तराखंड सरकार।
31.	पश्चिमी बंगाल	डॉ. सी. एम. घोष, निदेशक औषधि नियंत्रण (आधुनिक चिकित्सा और आईएसएम औषधि) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार।
32.	अंदमान और निकोबार	आयुक्त सह सचिव (स्वास्थ्य) अंदमान और निकोबार प्रशासन।
33.	चंडीगढ़	डॉ. एन. एस. भारद्वाज, उप निदेशक (आयुर्वेद), चंडीगढ़ प्रशासन।
34.	दादरा और नागर हवेली	डॉ. एम. वी. ढोडिया, औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य सेवा विभाग, दादरा और नागर हवेली प्रशासन।
35.	दमन और दीव	श्री धर्मेश अग्रवाल, औषधि अनुज्ञप्ति प्राधिकरण, दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासन।
36.	लक्षद्वीप	श्री वी. सी. पांडे, सचिव स्वास्थ्य और अध्यक्ष राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन।
37.	पुडुचेरी	श्री जी. रागेश चंद्र, सचिव, स्वास्थ्य, पुडुचेरी सरकार।

2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, विभाग में औषधि से व्यवहार करने वाला संयुक्त सचिव, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श समिति (ए.एस.यू.डी.सी.) का अध्यक्ष होगा और आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि से व्यवहार करने वाला सलाहकार (आयुर्वेद) या संयुक्त सलाहकार (आयुर्वेद) आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी सलाहकार समिति का सदस्य सचिव होगा।
3. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी परामर्श समिति की अवधि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की रहेगी।
4. आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श समिति के किसी सदस्य के स्थातांतरण या प्रतिनियुक्ति या सेवा निवृत्त होने की दशा में, कथित पद पर आसीन अधिकारी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधि परामर्श समिति की बैठकों में भाग लेने में अपने-अपने राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे।

[फा. सं. के. 11026/2/2011-डी.सी.सी(आयुष)]

बाला प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**(Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy)****NOTIFICATION**

New Delhi, 30th December, 2013

S.O. 3909(E).—In exercise of the powers conferred by Section 33D of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 1406 (E), dated the 23rd September, 2005, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Consultative Committee with representatives of Central Government, State Governments and the Government of Union Territories as specified in column (2) of the Table and members as specified in column (3) of the said Table, namely:—

TABLE

S. No.	Representatives	Members
(1)	(2)	(3)
1.	Central Government	Joint Secretary of Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy dealing with Ayurveda, Siddha and Unani Drugs, Government of India.
2.	Central Government	Advisor or Joint Advisor (Ayurveda), Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, dealing with drugs, Government of India.
3.	Andhra Pradesh	Commissioner of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of Andhra Pradesh.
4.	Arunachal Pradesh	Dr. Inya Lingu, Drugs Licensing Authority (ASU), Department of Health and Family Welfare, Government of Arunachal Pradesh.
5.	Assam	Sri Munin Chandra Deka, Additional Drug Controller, Director of Health Services, Government of Assam.
6.	Bihar	Secretary, Department of Health, Government of Bihar.
7.	Chhattisgarh.	Dr. G.S. Badesha, Director, Directorate of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of Chhattisgarh.
8.	Delhi	Dr. Nilesh Ahuja, Deputy Director (Indian System of Medicine) Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy, Government of National Capital Territory of Delhi.
9.	Goa	Director (Food and Drugs), Directorate of Food and Drugs Administration, Public Health Department, Government of Goa.
10.	Gujarat	Joint Commissioner (Ayurveda Medicine), Food and Drug Control Administration, Government of Gujarat.
11.	Haryana	Dr. Sangeeta Nehra, Director (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy), Health and Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy Department, Government of Haryana.
12.	Himachal Pradesh	Director (Ayurveda), Department of Ayurveda, Government of Himachal Pradesh.
13.	Jammu and Kashmir	Shri Manoj Kumar Dwivedi, Secretary, Health and Medical Education Department, Government of Jammu and Kashmir.
14.	Jharkhand	Dr. Shakti Nath Jha, Director Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy Department of Health, Medical Education and Family Welfare, Government of Jharkhand.
15.	Karnataka	Director and Drugs Controller, Department of Ayurveda, Yoga and

		Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of Karnataka.
16.	Kerala	Dr. N. Vimala, Deputy Drugs Controller (Ayurveda, Siddha, Unani), Health and Family Welfare (F) Department, Government of Kerala.
17.	Madhya Pradesh	Shri. Praveer Krishna, Principal Secretary, Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of Madhya Pradesh.
18.	Maharashtra	Joint Commissioner (Headquarters) and Controlling Authority, Food and Drug Administration, Government of Maharashtra.
19.	Manipur	Dr. A. Guneshwor Sharma, State Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy Officer, Medical Directorate, Government of Manipur.
20.	Meghalaya	Secretary, Health and Family Welfare Department, Government of Meghalaya.
21.	Mizoram	Dr. C. Lallunghnema, Deputy Director (Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy), Health and Family Welfare Department, Government of Mizoram.
22.	Nagaland	Dr. Khonuo Mary, Medical Officer Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (Ay.) Directorate of Health and Family Welfare, Government of Nagaland.
23.	Odisha	Joint Secretary dealing with Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy matters, State Health and Family Welfare Department, Government of Odisha.
24.	Punjab	Shri Raj Kamal Choudhary, Secretary Health-cum-Commissioner Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of Punjab.
25.	Rajasthan	Director, Department of Ayurveda, Government of Rajasthan
26.	Sikkim	Dr. I.L. Sharma, Director Health Services (In-charge of Drugs and Cosmetics Cell), Department of Health Care, Human Services and Family Welfare, Government of Sikkim.
27.	Tamil Nadu	Dr. A.M. Abdul Khadhar, Joint Director in-charge, Indian Medicine and Homoeopathy Department, Government of Tamil Nadu.
28.	Tripura	Dr. Narayan Goswami, Inspecting Officer (Drugs), Office of the Deputy Drugs Controller, Health and Family Welfare Department, Government of Tripura.
29.	Uttar Pradesh	Professor RR Chaudhary, Licensing Authority and Director Ayurvedic Services, Government of Uttar Pradesh.
30.	Uttarakhand	Dr. Yatendra Singh Rawat, Assistant Drug Controller, Directorate of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Government of Uttarakhand.
31.	West Bengal	Dr. C.M. Ghosh, Director Drug Control (Modern Medicine and ISM Drugs), Health and Family Welfare Department, Government of West Bengal.
32.	Andaman and Nicobar Islands	Commissioner-cum-Secretary (Health), Andaman and Nicobar Administration.
33.	Chandigarh	Dr. N.S. Bhardwaj, Deputy Director (Ayurveda), Chandigarh Administration.
34.	Dadra and Nagar Haveli	Dr. M.V. Dhodia, Drugs Licensing Authority, Department of Medical and Public Health Services, Dadra and Nagar Haveli Administration.
35.	Daman and Diu	Shri Dharmesh Agarwal, Drug Licensing Authority, Administration of Union Territory of Daman and Diu.
36.	Lakshadweep	Shri V.C. Pandey, Secretary Health and Chairman of State Health Society, Administration of the Union Territory of Lakshadweep.
37.	Puducherry	Shri G. Ragesh Chandra, Secretary, Health, Government of Puducherry.

2. The Joint Secretary dealing with drugs in the Department of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy, Ministry of Health and Family Welfare shall be the Chairman of Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Consultative Committee (ASUDCC) and Adviser or Joint Adviser (Ayurveda) dealing with ASU drugs shall be the Member Secretary of the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Consultative Committee.
3. The term of the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Consultative Committee shall be five years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.
4. In case of transfer or deputation or retirement of any member of the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Consultative Committee, the incumbent at the respective post shall continue to represent the State or Union Territory in attending the meetings of the Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Consultative Committee.

[F.No.K.11026/2/2011-DCC (AYUSH)]

BALA PRASAD, Jt. Secy.